

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया ने आरसीए के सफल छात्रों को किया सम्मानित

आवासीय कोचिंग अकादमी (RCA), सेंटर फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग, जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने 23 दिसंबर, 2022 को अकादमी के उन छात्रों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिनका चयन यूपीएससी, केंद्रीय एवं राज्य संबद्ध सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर विभिन्न सेवाओं के लिए हुआ था।

जामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और डॉ. शाह फैसल (आईएस), उप सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, सम्मानित अतिथि थे। प्रो नाज़िम हुसैन जाफरी, रजिस्ट्रार और प्रो अतीकुर रहमान, मुख्य प्रॉक्टर, जामिया और अन्य अधिकारियों भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रोफेसर आबिद हलीम, प्रोफेसर इंचार्ज-आरसीए ने कार्यक्रम में सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों का स्वागत किया और इस वर्ष आरसीए की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आरसीए के छात्रों को सर्वोत्तम मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आने वाले दिनों में क्रियान्वित की जाने वाली भविष्य की योजनाओं की एक संक्षिप्त रिपोर्ट को रेखांकित किया। उन्होंने मौजूदा पुस्तकालय की बैठने की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला और सम्मानित अतिथि से इसके लिए समर्थन का अनुरोध किया।

डॉ. शाह फैसल ने जामिया की वाइस चांसलर प्रो. नजमा अख्तर के गतिशील नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने आरसीए को मार्गदर्शन और समर्थन दिया और इसे उत्कृष्टता की अकादमी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने हर संभव तरीके से अकादमी का समर्थन करने की इच्छा भी दिखाई।

प्रो. नजमा अख्तर ने आरसीए के सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए भी खुशी व्यक्त की कि 2021 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर श्रुति शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों ने अकादमी का नाम रोशन किया है जामिया को गौरवान्वित किया है। छात्रों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरसीए के अपने अनुभवों को भी साझा किया कि कैसे अकादमी ने उनके व्यक्तित्व को विकसित करने में मदद की है। विभिन्न सेवाओं में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी सफलता के मंत्र भी बताए। सभी सफल अभ्यर्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया तथा उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए।

प्रो. अहमद फैजान शेरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर इंचार्ज, आरसीए द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर और जेएमआई के अधिकारियों ने छात्रों के साथ बातचीत की।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया